



1-Swachh Survekshan Grameen, 2021 launched under the Swachh Bharat Mission Phase- 2 i.e. on 9th September, 2021.

स्वच्छ भारत मिशन चरण-2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2021 को 9 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया।

2-In the series of 'Azadi ka Amrit Mahotsav' celebrations a book exhibition of important and original authentic publications published by ministry of law and justice was inaugurated in the district judge premises of Varanasi.

आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के सिलसिले में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण, मौलिक और प्रामाणिक प्रकाशनों की प्रदर्शनी का उदघाटन वाराणसी के जिला न्यायालय के परिसर में किया गया।

3-Cuemath, an online math learning platform, said it has appointed former Swiggy executive Vivek Sunder as its Chief Executive Officer.

ऑनलाइन गणित सीखने के मंच क्यूमैथ ने कहा कि उसने स्विगी के पूर्व कार्यकारी विवेक सुंदर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है।

4-IIT Madras has topped the Rankings in the overall category in National Institutional Ranking Framework (NIRF). IISc Bengaluru has come second, which is followed by IIT Bombay at the third place in the ranking.

आईआईटी मद्रास, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क - एनआईआरएफ में समग्र श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। रैंकिंग में बेगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है।

5-The T20 World Cup is set to be held in the UAE and Oman from 17th of next month to 14th November this year.

ट्वेंटी-ट्वेंटी विश्व कप इस वर्ष 17 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक संयुक्त अरब अमरात और ओमान में खेला जायेगा।

6-Cabinet Committee on Security approved the procurement of 56 C-295MW transport aircraft from M/s Airbus Defence and Space S.A., Spain for the Indian Air Force.

कैबिनेट की सुरक्षा मामलों संबंधी समिति ने भारतीय वायु सेना के लिए मैसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए, स्पेन से **56** सी-**295** एमडब्ल्यू परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी।

7-Cabinet increases Minimum Support Prices (MSP) for Rabi crops for marketing season 2022-23.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन **2022-23** के सम्बन्ध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने को मंजूरी दी।

8-The Asian Development Bank (ADB) and the Government of India signed a \$300 million loan as additional financing to scale up improvement of rural connectivity to help boost rural economy in the state of Maharashtra.

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के तौर पर **30** करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

9-The Government of India and Asian Development Bank (ADB) signed a \$112 million loan to develop water supply infrastructure and strengthen capacities of urban local bodies (ULBs) for improved service delivery in four towns in the state of Jharkhand.

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने झारखंड राज्य के चार शहरों में आपूर्ति सेवा को बेहतर करने के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमताओं को मजबूती देने के लिए **11.2** करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

10-Amid ongoing Naga peace process, the Centre and the Niki Sumi-led group of the National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NSCN-K) signed a ceasefire agreement for one year, till September 7, 2022.

नागा शांति प्रक्रिया के बीच, केंद्र और निकी सुमी के नेतृत्व वाले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग (एनएससीएन-के) के समूह ने बुधवार को एक साल के लिए **7** सितंबर **2022** तक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए।